




SSC SPECIAL CLASS



AGE / आयु

MATHS



LECTURE 10

1:00 PM

Mahendra's

ENSURE YOUR SUCCESS WITH- VIDEO GURU



A COMPLETE VIDEO CLASS FOR YOUR PREPARATION

Subscribe BUTTON

BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE. VISIT NOW: myshop.mahendras.com

 Mahendra's

HALF PRICE

OFFER



LIVE GURU : EXAM TICKET

10th
AUGUST 2019

10:00 AM TO 6:00 PM

ALL
LIVE CLASSES

@499/-
Only

BUY FROM

myshop.mahendras.org

 Mahendra's

ENSURE YOUR SUCCESS WITH- VIDEO GURU



A COMPLETE VIDEO CLASS
FOR YOUR PREPARATION

Subscribe
BUTTON



BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE. VISIT NOW: myshop.mahendras.org



CRACK IBPS PO / CLERK PRE EXAM



With  *Mahendra's*

VIDEO COURSE

BASED ON LATEST EXAM PATTERN

BUY FROM

myshop.mahendras.org





ENSURE YOUR SUCCESS WITH- VIDEO GURU



A COMPLETE VIDEO CLASS
FOR YOUR PREPARATION

Subscribe
BUTTON



BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: **STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE.** VISIT NOW: myshop.mahendras.org



ARE YOU SEARCHING FOR

RAILWAY NTPC PRE

COMPLETE VIDEO COURSE

SPECIALLY DESIGNED ON LATEST
EXAM PATTERN



BUY FROM

myshop.mahendras.org

Mahendra's

ENSURE YOUR SUCCESS WITH- **VIDEO GURU**



A COMPLETE VIDEO CLASS
FOR YOUR PREPARATION

Subscribe
BUTTON



BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE. VISIT NOW: myshop.mahendras.org



The ratio of the present ages of a mother and her daughter is 7 : 1. Four years ago, the ratio of their ages was 19 : 1. What will be the mother's age four years from now?


एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7: 1 है. 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 19: 1 था। अब से चार साल पहले माँ की आयु क्या होगी?

(A) 42 years

(C) 38 years

(B) 46 years


(D) 36 years



The age of Nishi and Vinnee are in the ratio 6 : 5 respectively. After 9 years, the ratio of their ages will be 9 : 8. What is the difference in the ages now?

निशि और विन्नी की आयु क्रमशः 6: 5 के अनुपात में है। 9 वर्षों के बाद, उनकी आयु का अनुपात 9: 8 होगा। अब उम्र में क्या अंतर है?

- (A) 3 years
- (C) 5 years
- (B) 7 years
- (D) 9 years



Maya got married 8 years ago. Today her age is $1\frac{2}{7}$ times her age at the time of her marriage. At present her daughter's age is one-sixth of her age. What was her daughter's age 2 years ago?


माया की शादी 8 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का $1\frac{2}{7}$ गुना है। वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का $\frac{1}{6}$ है। 2 साल पहले उनकी बेटी की उम्र क्या थी?

(A) 4 years

(C) 3 years

(B) 6 years

(D) CND



The average of the ages of a man and his daughter is 34 years. If the respective ratio of their ages four years from now is 14 : 5, what is daughter's present age?


एक आदमी और उसकी बेटी की उम्र का औसत 34 साल है। यदि अब से चार वर्ष की आयु का अनुपात 14: 5 है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है?

(A) 10 years

(C) 12 years

(B) 18 years

(D) CND



Ratio of Roma's and nillu's ages is 3 : 5 respectively. Ratio of Komal's and Pooja's ages is 2 : 3 respectively. If Roma is two-fifth of Pooja's age, what is Roma's age?


रोमा और निल्लू की आयु का अनुपात क्रमशः 3: 5 है। निल्लू और पूजा की उम्र का अनुपात क्रमशः 2: 3 है। अगर रोमा, पूजा की उम्र का पांचवा हिस्सा है, तो रोमा की उम्र क्या है?

(A) 10 years

(C) 15 years

(B) 14 years

(D) CND



The age of a father 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence, the father's age will be twice that of his son. The ratio of their present age is-


10 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से तीन गुनी थी। 10 साल बाद, पिता की उम्र उसके बेटे से दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है-

(A) 8 : 5

(C) 7 : 3

(B) 9 : 5

(D) 5 : 2



The age of two persons differ by 20 years. If 5 years ago, the older one be 5 times as old as the younger one, then their present ages are.

दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 साल पहले, बड़े वाले की आयु छोटे वाले की 5 गुना थी, तो उनकी वर्तमान उम्र होती है।

- (A) 25 years, 5 years
- (C) 30 years, 10 years
- (B) 35 year, 15 years
- (D) 50 years, 30 years



If 10 years are subtracted from the present age of Mr. Trump and the remainder divided by 14, then you would get the present age of his grandson Jagga. If Jagga is 9 years younger to Babli whose age is 14 years, then what is the present age of Mr. Trump?

यदि श्री ट्रम्प की वर्तमान आयु से 10 वर्ष घटाए जाते हैं और शेष 14 से विभाजित किया जाता है, तो आपको उनके पोते जग्गा की वर्तमान आयु मिल जाएगी। अगर जग्गा, बबली से 9 साल छोटा है जिसकी उम्र 14 साल है, तो श्री ट्रम्प की वर्तमान उम्र क्या है?

(A) 60 years

(C) 70 years

(B) 74 year

(D) 80 years

 Mahendra's

ENSURE YOUR SUCCESS WITH- **VIDEO GURU**



A COMPLETE VIDEO CLASS
FOR YOUR PREPARATION

Subscribe
BUTTON 

BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: **STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE.** VISIT NOW: myshop.mahendras.c



TARGET



DELHI POLICE EXAM..!!

START PREPARING WITH  *Mahendra's* LIVE BATCHES

BATCH STARTS FROM

1 Aug 2019

**Delhi Police
Complete Course
₹1099**

**Delhi Police Maths
₹499**

**Delhi Police Reasoning
₹499**

**Delhi Police GK & CA
₹599**

BUY FROM

myshop.mahendras.org



ENSURE YOUR SUCCESS WITH- **VIDEO GURU**



A COMPLETE VIDEO CLASS
FOR YOUR PREPARATION

Subscribe
BUTTON



BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE. VISIT NOW: myshop.mahendras.org

LIVE CLASS



CRACK HSSC EXAM

WITH  *Mahendra's* **LIVE BATCHES**

BATCH STARTS FROM - 1 AUG 2019

HSSC
COMPLETE COURSE

MATHS
COMPLETE COURSE

HINDI
COMPLETE COURSE



GK & GS
COMPLETE COURSE

REASONING
COMPLETE COURSE



BATCH STARTS FROM - 9 SEP 2019

ENGLISH
COMPLETE COURSE

BUY FROM
myshop.mahendras.org



ENSURE YOUR SUCCESS WITH- VIDEO GURU



A COMPLETE VIDEO CLASS FOR YOUR PREPARATION

Subscribe BUTTON 

BOOST YOUR PREPARATIONS WITH MAHENDRAS: STUDY MATERIAL, E-MICA, E-NEWS, BAGS & MUCH MORE. VISIT NOW: myshop.mahendras.org